

एनईआर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For NER

दिनांक/Date: 01-02-2025

| दिनांक और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------------|--|--|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1793 | 1839 | 1823 | 30 | 17 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1762 | 1807 | 1791 | 29 | 16 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1728 | 1773 | 1755 | 26 | 18 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 1700 | 1744 | 1730 | 29 | 15 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 1673 | 1716 | 1697 | 24 | 19 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 1647 | 1690 | 1667 | 20 | 23 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 1626 | 1668 | 1625 | 1 | 43 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 1608 | 1649 | 1621 | 13 | 29 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 1590 | 1631 | 1604 | 14 | 27 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 1573 | 1613 | 1589 | 16 | 25 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 1557 | 1597 | 1575 | 18 | 22 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 1548 | 1588 | 1578 | 30 | 10 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 1544 | 1584 | 1568 | 24 | 16 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 1555 | 1596 | 1556 | 1 | 39 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 1549 | 1590 | 1554 | 4 | 36 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 1549 | 1589 | 1543 | 5 | 46 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 1550 | 1591 | 1544 | 7 | 47 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 1560 | 1600 | 1556 | 3 | 44 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 1577 | 1618 | 1574 | 3 | 44 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 1603 | 1644 | 1599 | 4 | 45 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 1635 | 1677 | 1633 | 2 | 45 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 1680 | 1724 | 1688 | 8 | 35 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 1743 | 1788 | 1742 | 1 | 46 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 1830 | 1877 | 1797 | 32 | 80 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 1948 | 1998 | 1902 | 46 | 96 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 2078 | 2132 | 2065 | 13 | 66 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 2197 | 2254 | 2216 | 19 | 37 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 2294 | 2353 | 2329 | 36 | 23 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 2364 | 2352 | 2411 | 47 | 59 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 2417 | 2405 | 2487 | 70 | 82 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 2446 | 2434 | 2547 | 102 | 114 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 2466 | 2454 | 2559 | 93 | 105 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 2470 | 2458 | 2528 | 58 | 70 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 2468 | 2456 | 2489 | 21 | 33 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 2465 | 2453 | 2481 | 16 | 28 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 2450 | 2438 | 2495 | 45 | 57 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 2419 | 2408 | 2503 | 83 | 95 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 2389 | 2377 | 2471 | 81 | 93 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 2361 | 2350 | 2418 | 57 | 69 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 2340 | 2328 | 2391 | 51 | 63 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 2328 | 2316 | 2354 | 26 | 38 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 2310 | 2299 | 2313 | 3 | 15 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 2296 | 2284 | 2291 | 5 | 6 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 2269 | 2258 | 2258 | 11 | 1 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 2250 | 2239 | 2229 | 21 | 10 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 2232 | 2221 | 2244 | 12 | 23 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 2218 | 2207 | 2238 | 20 | 31 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 2206 | 2195 | 2219 | 13 | 24 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 2196 | 2185 | 2211 | 15 | 26 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 2189 | 2178 | 2204 | 15 | 26 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 2183 | 2172 | 2217 | 34 | 45 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 2180 | 2169 | 2220 | 40 | 51 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 2173 | 2162 | 2203 | 30 | 41 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 2167 | 2156 | 2200 | 33 | 43 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 2158 | 2148 | 2194 | 36 | 46 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 2157 | 2147 | 2182 | 25 | 36 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 2164 | 2154 | 2167 | 2 | 13 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 2171 | 2161 | 2169 | 2 | 8 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 2181 | 2171 | 2172 | 9 | 1 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 2193 | 2182 | 2187 | 6 | 5 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 2214 | 2203 | 2208 | 6 | 5 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 2239 | 2228 | 2217 | 22 | 11 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 2273 | 2262 | 2223 | 50 | 39 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 2310 | 2299 | 2231 | 79 | 68 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 2364 | 2352 | 2253 | 110 | 99 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 2433 | 2421 | 2291 | 143 | 131 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 2517 | 2504 | 2334 | 183 | 171 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 2616 | 2603 | 2473 | 143 | 130 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 2725 | 2674 | 2624 | 101 | 50 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 2828 | 2775 | 2788 | 40 | 13 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 2904 | 2850 | 2892 | 12 | 42 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 2924 | 2870 | 2906 | 19 | 36 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 2917 | 2863 | 2862 | 55 | 1 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 2890 | 2836 | 2807 | 83 | 29 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 2860 | 2807 | 2785 | 75 | 22 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 2835 | 2783 | 2772 | 63 | 10 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 2811 | 2759 | 2746 | 66 | 14 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 2793 | 2741 | 2737 | 56 | 4 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 2775 | 2724 | 2755 | 20 | 31 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 2751 | 2700 | 2745 | 6 | 45 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 2726 | 2675 | 2700 | 26 | 24 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 2707 | 2656 | 2673 | 34 | 16 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 2684 | 2634 | 2633 | 51 | 1 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 2641 | 2592 | 2599 | 41 | 8 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 2573 | 2526 | 2565 | 9 | 39 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 2494 | 2448 | 2500 | 6 | 53 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 2414 | 2369 | 2425 | 11 | 56 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 2335 | 2292 | 2363 | 28 | 71 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 2260 | 2218 | 2304 | 44 | 86 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 2183 | 2143 | 2238 | 55 | 95 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 2108 | 2069 | 2152 | 44 | 83 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 2041 | 2003 | 2086 | 45 | 83 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 1975 | 2006 | 2008 | 33 | 1 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1911 | 1942 | 1955 | 44 | 13 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1855 | 1885 | 1901 | 46 | 16 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|------|------|----|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1799 | 1828 | 1830 | 31 | 3 |
|----|---------------|------|------|------|----|---|

अरुणाचल प्रदेश के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Arunachal Pradesh

दिनांक/ Date: 01-02-2025

| दिनांक/ Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 117 | 114 | 115 | 2 | 1 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 116 | 113 | 111 | 5 | 2 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 114 | 111 | 110 | 4 | 1 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 113 | 109 | 108 | 5 | 2 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 112 | 109 | 106 | 6 | 3 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 112 | 109 | 108 | 4 | 1 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 112 | 109 | 107 | 5 | 1 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 111 | 108 | 108 | 3 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 109 | 106 | 106 | 2 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 107 | 104 | 106 | 1 | 2 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 106 | 104 | 108 | 1 | 4 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 107 | 104 | 101 | 7 | 4 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 107 | 104 | 105 | 3 | 0 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 107 | 104 | 104 | 3 | 0 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 106 | 103 | 103 | 4 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 106 | 103 | 100 | 6 | 3 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 107 | 104 | 104 | 2 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 107 | 104 | 103 | 3 | 0 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 108 | 105 | 106 | 2 | 1 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 110 | 107 | 107 | 3 | 0 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 112 | 109 | 110 | 2 | 1 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 115 | 112 | 115 | 0 | 3 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 119 | 116 | 119 | 0 | 3 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 124 | 120 | 120 | 3 | 0 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 128 | 124 | 127 | 0 | 3 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 133 | 130 | 133 | 0 | 4 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 140 | 136 | 144 | 4 | 8 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 146 | 142 | 146 | 0 | 4 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 151 | 147 | 153 | 2 | 6 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 156 | 152 | 153 | 3 | 1 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 158 | 154 | 150 | 9 | 4 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 158 | 154 | 145 | 14 | 9 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 155 | 151 | 142 | 13 | 9 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 152 | 148 | 134 | 18 | 14 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 150 | 145 | 131 | 19 | 15 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 151 | 146 | 129 | 21 | 17 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 151 | 143 | 134 | 17 | 9 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 152 | 144 | 133 | 19 | 11 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 151 | 143 | 137 | 14 | 6 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 147 | 140 | 134 | 14 | 6 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 146 | 135 | 130 | 15 | 5 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 146 | 135 | 123 | 23 | 12 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 149 | 138 | 123 | 27 | 15 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 149 | 138 | 126 | 23 | 12 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 148 | 134 | 129 | 19 | 5 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 145 | 132 | 132 | 13 | 1 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 145 | 131 | 135 | 9 | 4 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 144 | 131 | 141 | 4 | 10 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 142 | 131 | 136 | 6 | 5 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 142 | 131 | 139 | 3 | 8 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 141 | 130 | 139 | 2 | 9 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 143 | 131 | 143 | 1 | 12 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 142 | 133 | 143 | 1 | 9 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 143 | 134 | 144 | 1 | 10 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 143 | 134 | 147 | 4 | 13 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 144 | 135 | 147 | 3 | 12 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 145 | 139 | 146 | 1 | 7 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 145 | 139 | 144 | 1 | 5 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 145 | 139 | 145 | 1 | 5 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 144 | 138 | 147 | 4 | 9 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 145 | 141 | 147 | 3 | 6 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 145 | 142 | 148 | 2 | 6 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 149 | 145 | 152 | 3 | 7 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 152 | 148 | 153 | 1 | 5 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 155 | 151 | 154 | 1 | 3 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 159 | 155 | 158 | 1 | 3 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 165 | 161 | 161 | 4 | 0 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 170 | 166 | 169 | 1 | 3 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 174 | 170 | 178 | 4 | 8 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 177 | 173 | 180 | 3 | 7 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 179 | 175 | 181 | 2 | 6 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 180 | 176 | 178 | 2 | 2 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 180 | 176 | 177 | 4 | 1 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 181 | 176 | 182 | 1 | 5 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 178 | 174 | 189 | 10 | 15 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 175 | 171 | 189 | 14 | 18 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 171 | 167 | 188 | 17 | 21 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 170 | 166 | 180 | 9 | 14 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 169 | 165 | 180 | 11 | 15 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 166 | 162 | 184 | 17 | 21 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 163 | 164 | 179 | 15 | 15 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 164 | 165 | 177 | 13 | 13 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 165 | 166 | 172 | 7 | 6 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 165 | 165 | 170 | 6 | 5 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 159 | 163 | 168 | 9 | 5 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 152 | 155 | 166 | 14 | 10 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 144 | 147 | 163 | 20 | 16 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 137 | 140 | 155 | 19 | 15 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 130 | 136 | 150 | 20 | 14 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 125 | 131 | 147 | 22 | 17 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 122 | 127 | 139 | 17 | 12 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 119 | 124 | 136 | 17 | 12 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 116 | 124 | 128 | 13 | 4 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 113 | 121 | 125 | 12 | 4 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 110 | 118 | 124 | 14 | 6 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 106 | 114 | 113 | 7 | 1 |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|

असम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Assam

Date: 01-02-2025

| दिनांक/ Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------|---------------|--|---|----------------------------------|--|--|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 973 | 1043 | 1048 | 74 | 5 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 957 | 1025 | 1037 | 81 | 13 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 940 | 1007 | 1019 | 79 | 12 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 924 | 989 | 1007 | 83 | 17 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 907 | 972 | 982 | 75 | 10 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 891 | 955 | 959 | 68 | 5 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 877 | 939 | 933 | 57 | 6 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 864 | 925 | 933 | 70 | 8 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 851 | 912 | 918 | 67 | 6 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 839 | 898 | 910 | 71 | 12 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 826 | 885 | 896 | 70 | 11 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 817 | 875 | 905 | 88 | 30 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 810 | 868 | 896 | 85 | 27 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 807 | 865 | 881 | 74 | 16 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 806 | 863 | 881 | 75 | 18 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 804 | 861 | 873 | 69 | 12 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 803 | 860 | 869 | 66 | 9 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 804 | 861 | 873 | 69 | 12 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 808 | 865 | 882 | 74 | 17 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 816 | 874 | 895 | 80 | 22 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 829 | 887 | 907 | 79 | 20 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 848 | 909 | 935 | 87 | 26 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 877 | 940 | 951 | 73 | 11 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 919 | 984 | 979 | 61 | 4 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 973 | 1043 | 1025 | 51 | 18 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 1037 | 1111 | 1114 | 77 | 3 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 1098 | 1177 | 1187 | 89 | 10 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 1149 | 1231 | 1244 | 94 | 13 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 1188 | 1273 | 1294 | 106 | 22 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 1220 | 1307 | 1331 | 111 | 24 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 1245 | 1334 | 1389 | 144 | 56 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 1263 | 1353 | 1402 | 139 | 49 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 1272 | 1363 | 1397 | 124 | 34 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 1278 | 1369 | 1399 | 120 | 29 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 1281 | 1372 | 1388 | 107 | 15 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 1279 | 1370 | 1383 | 104 | 13 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 1272 | 1362 | 1383 | 111 | 21 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 1260 | 1350 | 1359 | 99 | 9 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 1253 | 1342 | 1311 | 58 | 31 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 1249 | 1338 | 1302 | 53 | 36 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 1247 | 1336 | 1293 | 45 | 43 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 1244 | 1333 | 1298 | 54 | 34 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 1239 | 1327 | 1281 | 42 | 46 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 1231 | 1318 | 1264 | 33 | 54 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 1221 | 1267 | 1243 | 21 | 24 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 1213 | 1258 | 1249 | 35 | 10 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 1205 | 1250 | 1239 | 33 | 12 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 1199 | 1243 | 1232 | 33 | 11 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 1191 | 1236 | 1227 | 36 | 8 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 1185 | 1229 | 1223 | 38 | 6 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 1180 | 1223 | 1234 | 55 | 11 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 1173 | 1217 | 1230 | 57 | 14 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 1168 | 1211 | 1215 | 48 | 4 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 1163 | 1206 | 1206 | 43 | 0 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 1161 | 1204 | 1198 | 37 | 6 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 1159 | 1202 | 1196 | 37 | 6 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 1157 | 1200 | 1180 | 23 | 21 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 1156 | 1199 | 1167 | 11 | 32 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 1156 | 1199 | 1161 | 5 | 38 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 1159 | 1202 | 1173 | 15 | 28 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 1164 | 1207 | 1172 | 9 | 35 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 1171 | 1215 | 1164 | 8 | 51 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 1181 | 1225 | 1159 | 22 | 66 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 1198 | 1243 | 1158 | 40 | 85 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 1226 | 1216 | 1165 | 61 | 51 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 1264 | 1255 | 1196 | 68 | 58 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 1311 | 1301 | 1217 | 95 | 84 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 1368 | 1358 | 1298 | 71 | 60 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 1432 | 1397 | 1377 | 55 | 20 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 1496 | 1459 | 1466 | 30 | 7 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 1539 | 1501 | 1525 | 14 | 23 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 1558 | 1520 | 1538 | 21 | 18 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 1557 | 1519 | 1531 | 26 | 12 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 1550 | 1512 | 1503 | 46 | 8 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 1542 | 1504 | 1501 | 40 | 3 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 1535 | 1497 | 1491 | 45 | 7 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 1528 | 1490 | 1477 | 51 | 13 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 1519 | 1481 | 1474 | 45 | 8 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 1508 | 1471 | 1467 | 41 | 4 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 1495 | 1458 | 1452 | 43 | 7 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 1485 | 1449 | 1428 | 57 | 21 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 1477 | 1441 | 1413 | 64 | 28 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 1468 | 1432 | 1405 | 63 | 27 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 1445 | 1409 | 1398 | 47 | 11 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 1407 | 1373 | 1387 | 21 | 14 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 1362 | 1329 | 1362 | 0 | 34 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 1320 | 1287 | 1322 | 2 | 35 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 1283 | 1251 | 1298 | 15 | 47 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 1249 | 1218 | 1277 | 28 | 59 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 1214 | 1184 | 1253 | 40 | 69 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 1177 | 1148 | 1210 | 33 | 62 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 1140 | 1112 | 1173 | 33 | 61 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 1104 | 1124 | 1133 | 29 | 8 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1069 | 1089 | 1109 | 40 | 20 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1033 | 1053 | 1083 | 49 | 30 |

| | | | | | | |
|----|-------------|-----|------|------|----|----|
| 96 | 2345 - 2400 | 998 | 1017 | 1044 | 46 | 27 |
|----|-------------|-----|------|------|----|----|

| मणिपुर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Manipur | | | | | | |
|--|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| दिनांक/Date: | | 01-02-2025 | | | | |
| दिनांक और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 102 | 108 | 104 | 2 | 4 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 98 | 104 | 99 | 0 | 5 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 96 | 102 | 98 | 2 | 4 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 96 | 101 | 98 | 2 | 4 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 95 | 101 | 97 | 2 | 4 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 95 | 100 | 96 | 1 | 4 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 94 | 99 | 95 | 1 | 5 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 94 | 99 | 94 | 0 | 5 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 93 | 98 | 93 | 1 | 5 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 92 | 98 | 92 | 0 | 6 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 92 | 97 | 93 | 1 | 4 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 92 | 97 | 94 | 2 | 3 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 92 | 96 | 94 | 2 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 92 | 96 | 94 | 2 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 93 | 97 | 94 | 2 | 3 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 94 | 98 | 95 | 1 | 3 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 97 | 101 | 98 | 2 | 3 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 100 | 104 | 100 | 0 | 4 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 105 | 109 | 104 | 1 | 5 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 110 | 115 | 108 | 2 | 7 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 118 | 123 | 117 | 1 | 6 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 128 | 133 | 123 | 5 | 10 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 140 | 146 | 136 | 4 | 10 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 156 | 162 | 150 | 5 | 12 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 175 | 182 | 170 | 4 | 12 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 194 | 203 | 190 | 5 | 13 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 209 | 218 | 205 | 4 | 13 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 216 | 226 | 215 | 2 | 11 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 215 | 220 | 217 | 2 | 3 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 209 | 213 | 219 | 10 | 6 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 198 | 202 | 222 | 24 | 20 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 188 | 192 | 220 | 32 | 28 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 183 | 191 | 205 | 22 | 14 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 186 | 193 | 174 | 12 | 20 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 192 | 200 | 167 | 25 | 33 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 195 | 203 | 174 | 21 | 29 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 193 | 194 | 188 | 5 | 5 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 178 | 179 | 180 | 2 | 2 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 174 | 174 | 179 | 6 | 6 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 172 | 176 | 176 | 4 | 0 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 171 | 175 | 167 | 3 | 7 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 168 | 172 | 164 | 3 | 7 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 162 | 166 | 160 | 3 | 6 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 158 | 161 | 156 | 2 | 6 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 154 | 157 | 152 | 1 | 5 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 149 | 152 | 151 | 2 | 2 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 144 | 147 | 144 | 0 | 3 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 141 | 144 | 138 | 2 | 6 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 139 | 143 | 135 | 5 | 8 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 137 | 140 | 132 | 4 | 8 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 135 | 138 | 129 | 6 | 9 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 135 | 138 | 128 | 7 | 10 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 137 | 140 | 131 | 6 | 10 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 137 | 140 | 131 | 5 | 9 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 137 | 140 | 131 | 6 | 9 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 138 | 138 | 131 | 7 | 7 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 139 | 139 | 135 | 4 | 4 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 141 | 142 | 137 | 4 | 4 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 145 | 145 | 139 | 6 | 6 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 153 | 153 | 142 | 11 | 11 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 158 | 159 | 149 | 10 | 10 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 164 | 165 | 154 | 11 | 11 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 170 | 170 | 159 | 11 | 11 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 176 | 174 | 159 | 18 | 15 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 183 | 180 | 151 | 32 | 29 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 192 | 189 | 163 | 29 | 26 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 205 | 201 | 189 | 15 | 12 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 222 | 211 | 208 | 14 | 3 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 237 | 225 | 229 | 8 | 3 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 248 | 236 | 242 | 5 | 7 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 248 | 236 | 245 | 3 | 9 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 242 | 234 | 226 | 16 | 8 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 233 | 225 | 199 | 33 | 25 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 225 | 217 | 186 | 39 | 32 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 217 | 210 | 186 | 31 | 24 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 211 | 199 | 183 | 29 | 16 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 208 | 195 | 183 | 25 | 13 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 206 | 194 | 201 | 4 | 8 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 200 | 189 | 209 | 9 | 20 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 195 | 189 | 196 | 1 | 7 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 190 | 184 | 192 | 2 | 8 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 185 | 180 | 188 | 3 | 9 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 180 | 174 | 182 | 2 | 8 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 173 | 170 | 170 | 2 | 1 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 165 | 163 | 166 | 1 | 4 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 158 | 155 | 153 | 5 | 2 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 148 | 146 | 147 | 1 | 1 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 139 | 137 | 141 | 2 | 4 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 131 | 129 | 132 | 1 | 3 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 124 | 122 | 127 | 3 | 5 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 118 | 116 | 123 | 4 | 6 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 113 | 112 | 115 | 1 | 3 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 111 | 109 | 110 | 1 | 1 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 109 | 107 | 106 | 3 | 1 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 107 | 105 | 105 | 2 | 0 |

मेघालय के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Meghalaya

दिनांक/Date: 01-02-2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|--|---|----------------------------------|--|--|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 246 | 237 | 219 | 27 | 18 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 242 | 234 | 216 | 26 | 18 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 239 | 230 | 213 | 26 | 18 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 236 | 228 | 209 | 27 | 19 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 233 | 219 | 207 | 25 | 12 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 231 | 217 | 205 | 26 | 12 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 229 | 215 | 199 | 30 | 17 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 229 | 215 | 195 | 34 | 20 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 229 | 210 | 198 | 31 | 12 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 228 | 209 | 195 | 33 | 15 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 228 | 209 | 194 | 34 | 16 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 227 | 209 | 194 | 33 | 15 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 227 | 203 | 194 | 33 | 9 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 224 | 201 | 195 | 29 | 6 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 223 | 200 | 194 | 29 | 5 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 221 | 198 | 193 | 29 | 6 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 222 | 199 | 190 | 32 | 9 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 224 | 201 | 192 | 32 | 8 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 227 | 203 | 192 | 35 | 12 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 230 | 206 | 192 | 38 | 14 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 233 | 209 | 193 | 40 | 16 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 236 | 211 | 195 | 41 | 17 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 242 | 216 | 202 | 39 | 14 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 250 | 224 | 209 | 41 | 15 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 263 | 236 | 225 | 38 | 11 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 277 | 248 | 246 | 30 | 1 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 289 | 259 | 266 | 23 | 7 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 304 | 272 | 283 | 21 | 11 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 317 | 284 | 288 | 30 | 3 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 330 | 295 | 296 | 34 | 1 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 335 | 300 | 304 | 31 | 4 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 339 | 304 | 302 | 36 | 1 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 339 | 304 | 298 | 42 | 6 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 338 | 303 | 297 | 41 | 6 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 335 | 300 | 298 | 37 | 2 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 330 | 296 | 299 | 32 | 3 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 326 | 292 | 292 | 34 | 0 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 322 | 288 | 290 | 31 | 2 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 319 | 286 | 289 | 31 | 3 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 315 | 283 | 286 | 30 | 3 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 313 | 281 | 276 | 37 | 5 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 310 | 278 | 267 | 43 | 11 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 308 | 276 | 264 | 44 | 12 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 306 | 274 | 257 | 49 | 17 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 304 | 272 | 253 | 51 | 19 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 300 | 269 | 262 | 38 | 7 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 297 | 266 | 261 | 36 | 5 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 296 | 265 | 258 | 38 | 7 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 296 | 265 | 254 | 42 | 11 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 296 | 266 | 250 | 46 | 16 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 297 | 266 | 253 | 44 | 13 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 297 | 266 | 255 | 41 | 11 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 295 | 264 | 254 | 40 | 10 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 289 | 259 | 254 | 36 | 5 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 285 | 255 | 254 | 31 | 1 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 284 | 254 | 253 | 31 | 1 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 287 | 257 | 252 | 35 | 5 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 292 | 262 | 254 | 38 | 7 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 296 | 265 | 257 | 38 | 8 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 297 | 266 | 260 | 37 | 6 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 299 | 268 | 266 | 33 | 2 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 302 | 271 | 270 | 32 | 1 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 308 | 276 | 274 | 34 | 2 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 314 | 282 | 274 | 40 | 8 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 319 | 286 | 281 | 38 | 5 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 325 | 291 | 289 | 36 | 2 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 332 | 297 | 290 | 41 | 7 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 339 | 303 | 304 | 35 | 0 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 345 | 309 | 323 | 22 | 13 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 353 | 316 | 333 | 19 | 17 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 361 | 324 | 344 | 17 | 21 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 366 | 328 | 346 | 20 | 18 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 367 | 329 | 347 | 20 | 18 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 368 | 330 | 347 | 21 | 17 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 370 | 332 | 347 | 23 | 15 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 370 | 331 | 348 | 22 | 17 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 368 | 335 | 348 | 20 | 14 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 366 | 333 | 347 | 19 | 14 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 366 | 333 | 349 | 17 | 16 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 364 | 331 | 346 | 18 | 15 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 359 | 327 | 342 | 17 | 15 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 355 | 323 | 338 | 17 | 15 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 352 | 320 | 335 | 17 | 15 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 349 | 317 | 330 | 19 | 12 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 343 | 312 | 325 | 17 | 13 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 335 | 305 | 316 | 20 | 11 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 328 | 299 | 310 | 18 | 11 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 320 | 291 | 298 | 22 | 7 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 312 | 284 | 292 | 20 | 9 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 303 | 276 | 287 | 16 | 11 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 294 | 267 | 277 | 17 | 10 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 283 | 258 | 268 | 15 | 11 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 273 | 249 | 261 | 12 | 13 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 264 | 240 | 253 | 10 | 13 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 256 | 233 | 240 | 16 | 7 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 249 | 226 | 229 | 20 | 3 |

मिज़ोरम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Mizoram

Date: 01-02-2025

| दिनांक/Date | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | व्यस्तिक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|--------------|---------------|--|---|----------------------------------|--|--|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 60 | 60 | 59 | 1 | 1 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 58 | 58 | 57 | 1 | 1 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 56 | 56 | 55 | 0 | 0 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 54 | 54 | 53 | 0 | 0 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 51 | 51 | 50 | 0 | 0 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 50 | 50 | 49 | 1 | 1 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 49 | 49 | 49 | 1 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 49 | 49 | 48 | 1 | 1 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 49 | 49 | 47 | 2 | 2 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 48 | 48 | 47 | 2 | 2 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 48 | 48 | 46 | 1 | 1 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 47 | 47 | 46 | 1 | 1 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 47 | 47 | 46 | 1 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 47 | 47 | 46 | 1 | 1 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 59 | 59 | 58 | 1 | 1 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 67 | 67 | 63 | 3 | 3 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 76 | 76 | 71 | 5 | 5 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 87 | 87 | 78 | 10 | 10 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 98 | 98 | 88 | 11 | 11 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 108 | 108 | 95 | 14 | 14 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 117 | 114 | 103 | 14 | 11 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 122 | 119 | 106 | 16 | 13 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 125 | 122 | 109 | 16 | 13 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 125 | 122 | 111 | 14 | 10 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 122 | 115 | 111 | 11 | 4 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 119 | 112 | 111 | 8 | 1 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 114 | 107 | 111 | 4 | 3 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 110 | 104 | 107 | 3 | 4 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 106 | 101 | 103 | 3 | 2 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 103 | 98 | 103 | 0 | 5 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 101 | 96 | 104 | 3 | 8 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 99 | 95 | 104 | 5 | 10 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 97 | 92 | 104 | 7 | 12 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 94 | 90 | 100 | 5 | 10 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 92 | 87 | 101 | 9 | 14 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 90 | 85 | 101 | 12 | 16 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 90 | 88 | 101 | 11 | 13 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 90 | 88 | 102 | 12 | 14 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 90 | 89 | 101 | 11 | 12 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 90 | 89 | 101 | 11 | 12 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 90 | 92 | 102 | 11 | 9 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 90 | 92 | 101 | 11 | 8 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 89 | 92 | 101 | 11 | 9 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 88 | 91 | 101 | 13 | 11 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 88 | 93 | 101 | 13 | 8 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 87 | 92 | 101 | 14 | 9 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 88 | 93 | 102 | 15 | 10 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 90 | 95 | 103 | 13 | 8 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 94 | 102 | 102 | 8 | 0 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 98 | 106 | 112 | 14 | 6 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 103 | 112 | 115 | 12 | 3 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 109 | 118 | 119 | 10 | 0 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 116 | 126 | 122 | 7 | 3 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 121 | 131 | 127 | 6 | 5 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 127 | 138 | 130 | 4 | 7 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 132 | 144 | 134 | 2 | 9 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 137 | 149 | 135 | 2 | 14 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 141 | 153 | 139 | 2 | 14 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 144 | 157 | 141 | 3 | 15 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 149 | 161 | 144 | 5 | 17 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 153 | 161 | 150 | 3 | 11 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 154 | 162 | 155 | 0 | 8 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 154 | 163 | 158 | 3 | 5 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 154 | 163 | 156 | 2 | 7 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 155 | 160 | 150 | 5 | 10 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 154 | 159 | 149 | 5 | 10 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 154 | 159 | 148 | 6 | 11 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 154 | 159 | 145 | 8 | 13 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 152 | 154 | 143 | 9 | 11 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 149 | 151 | 143 | 6 | 8 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 147 | 148 | 143 | 3 | 5 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 144 | 146 | 139 | 5 | 7 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 141 | 140 | 138 | 2 | 1 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 138 | 137 | 138 | 0 | 1 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 135 | 134 | 133 | 2 | 1 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 131 | 130 | 130 | 1 | 0 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 127 | 126 | 128 | 1 | 2 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 122 | 121 | 121 | 1 | 0 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 117 | 116 | 115 | 1 | 0 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 110 | 109 | 110 | 0 | 1 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 103 | 102 | 104 | 1 | 1 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 96 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 89 | 88 | 89 | 0 | 1 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 82 | 81 | 83 | 2 | 2 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 75 | 75 | 78 | 2 | 3 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 94 | 23.15 - 23.30 | 71 | 70 | 73 | 2 | 2 |
| 95 | 23.30 - 23.45 | 67 | 67 | 68 | 0 | 1 |
| 96 | 23.45 - 24.00 | 64 | 63 | 64 | 0 | 1 |

नागालैंड के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Nagaland

दिनांक/Date: 01-02-2025

| दिनांक और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-------------------------------|---------------|--|---|----------------------------------|--|--|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 82 | 72 | 71 | 11 | 1 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 79 | 70 | 70 | 9 | 1 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 77 | 68 | 70 | 7 | 3 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 75 | 66 | 67 | 8 | 2 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 74 | 65 | 67 | 7 | 2 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 72 | 63 | 66 | 6 | 3 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 71 | 62 | 66 | 5 | 4 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 70 | 61 | 66 | 4 | 5 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 70 | 61 | 66 | 4 | 5 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 70 | 61 | 65 | 5 | 4 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 70 | 62 | 65 | 5 | 4 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 70 | 62 | 65 | 5 | 3 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 69 | 61 | 65 | 4 | 3 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 67 | 60 | 65 | 2 | 5 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 66 | 59 | 66 | 0 | 7 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 68 | 60 | 66 | 1 | 6 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 69 | 63 | 68 | 1 | 5 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 71 | 65 | 70 | 1 | 5 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 74 | 68 | 71 | 4 | 3 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 78 | 71 | 74 | 4 | 3 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 82 | 76 | 79 | 3 | 3 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 86 | 80 | 86 | 1 | 5 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 92 | 86 | 92 | 1 | 6 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 100 | 93 | 92 | 8 | 1 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 113 | 105 | 94 | 19 | 11 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 124 | 115 | 105 | 19 | 10 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 130 | 121 | 113 | 17 | 8 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 130 | 120 | 123 | 7 | 2 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 127 | 120 | 117 | 10 | 3 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 124 | 118 | 132 | 7 | 14 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 121 | 115 | 122 | 1 | 7 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 122 | 116 | 114 | 9 | 2 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 124 | 117 | 107 | 17 | 11 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 124 | 117 | 106 | 18 | 11 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 119 | 113 | 111 | 9 | 3 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 114 | 108 | 124 | 9 | 15 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 110 | 107 | 124 | 13 | 17 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 107 | 104 | 124 | 16 | 20 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 107 | 104 | 125 | 18 | 22 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 107 | 103 | 119 | 13 | 16 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 105 | 105 | 116 | 11 | 11 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 101 | 101 | 107 | 7 | 6 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 96 | 97 | 107 | 10 | 10 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 94 | 94 | 102 | 9 | 8 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 92 | 95 | 96 | 4 | 0 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 91 | 95 | 94 | 3 | 0 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 90 | 94 | 99 | 8 | 5 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 90 | 93 | 97 | 7 | 4 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 88 | 92 | 102 | 13 | 10 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 88 | 92 | 97 | 9 | 6 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 89 | 93 | 95 | 5 | 2 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 92 | 95 | 96 | 4 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 95 | 99 | 97 | 2 | 1 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 98 | 101 | 105 | 7 | 3 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 101 | 105 | 104 | 2 | 1 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 104 | 108 | 102 | 3 | 6 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 109 | 113 | 110 | 1 | 3 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 113 | 117 | 111 | 1 | 5 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 114 | 118 | 115 | 2 | 2 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 115 | 119 | 112 | 3 | 7 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 117 | 121 | 124 | 7 | 3 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 120 | 125 | 128 | 8 | 3 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 124 | 128 | 129 | 5 | 1 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 127 | 132 | 131 | 4 | 1 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 130 | 134 | 136 | 6 | 1 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 133 | 138 | 134 | 1 | 4 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 137 | 142 | 137 | 0 | 5 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 142 | 147 | 135 | 6 | 11 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 146 | 152 | 142 | 4 | 9 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 149 | 154 | 153 | 4 | 1 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 150 | 156 | 152 | 2 | 4 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 148 | 153 | 151 | 3 | 2 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 144 | 150 | 139 | 5 | 10 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 139 | 144 | 136 | 3 | 8 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 134 | 139 | 124 | 10 | 15 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 128 | 133 | 121 | 8 | 12 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 124 | 126 | 116 | 8 | 10 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 121 | 123 | 116 | 5 | 7 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 121 | 123 | 121 | 0 | 2 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 124 | 126 | 132 | 8 | 6 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 126 | 131 | 133 | 7 | 2 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 127 | 132 | 128 | 2 | 3 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 123 | 128 | 117 | 7 | 11 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 120 | 124 | 111 | 9 | 13 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 117 | 119 | 110 | 7 | 10 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 114 | 116 | 102 | 12 | 14 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 110 | 112 | 102 | 8 | 10 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 104 | 106 | 103 | 1 | 3 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 98 | 97 | 99 | 1 | 2 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 94 | 93 | 90 | 3 | 3 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 91 | 90 | 85 | 6 | 5 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 88 | 87 | 81 | 7 | 6 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 85 | 83 | 78 | 8 | 6 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 82 | 80 | 73 | 9 | 7 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 79 | 77 | 72 | 7 | 5 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 76 | 74 | 70 | 6 | 4 |

| त्रिपुरा के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Tripura | | | | | | |
|--|---------------|--|---|----------------------------------|---|---|
| दिनांक/Date: 01-02-2025 | | | | | | |
| दिनांक और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 210 | 210 | 204 | 6 | 6 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 209 | 209 | 198 | 11 | 11 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 204 | 204 | 188 | 16 | 16 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 202 | 202 | 186 | 16 | 16 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 198 | 194 | 185 | 13 | 9 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 194 | 190 | 181 | 13 | 9 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 192 | 188 | 174 | 18 | 14 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 191 | 187 | 175 | 16 | 12 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 189 | 182 | 173 | 16 | 8 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 187 | 180 | 172 | 15 | 8 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 185 | 178 | 172 | 13 | 6 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 186 | 179 | 173 | 14 | 6 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 192 | 181 | 169 | 22 | 12 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 210 | 199 | 171 | 39 | 28 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 208 | 197 | 170 | 39 | 27 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 209 | 197 | 170 | 39 | 27 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 206 | 189 | 168 | 38 | 21 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 206 | 189 | 170 | 36 | 19 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 207 | 189 | 171 | 36 | 18 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 211 | 193 | 174 | 37 | 19 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 211 | 185 | 175 | 35 | 10 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 212 | 187 | 182 | 30 | 5 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 213 | 188 | 184 | 29 | 3 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 215 | 189 | 183 | 32 | 6 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 220 | 194 | 190 | 29 | 3 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 226 | 198 | 199 | 26 | 1 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 231 | 204 | 213 | 18 | 9 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 240 | 211 | 225 | 15 | 14 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 249 | 219 | 239 | 9 | 21 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 256 | 225 | 251 | 5 | 25 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 263 | 231 | 251 | 12 | 20 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 270 | 238 | 265 | 5 | 27 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 273 | 246 | 268 | 5 | 22 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 271 | 244 | 269 | 2 | 25 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 274 | 247 | 276 | 2 | 29 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 270 | 243 | 278 | 8 | 35 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 261 | 242 | 278 | 17 | 36 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 258 | 239 | 274 | 16 | 35 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 253 | 234 | 272 | 19 | 37 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 249 | 231 | 267 | 18 | 36 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 248 | 238 | 258 | 11 | 20 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 245 | 236 | 251 | 6 | 15 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 243 | 234 | 251 | 7 | 16 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 238 | 229 | 248 | 10 | 19 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 238 | 235 | 252 | 15 | 17 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 239 | 236 | 253 | 14 | 16 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 241 | 238 | 252 | 11 | 14 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 244 | 241 | 247 | 3 | 6 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 247 | 249 | 252 | 5 | 3 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 247 | 249 | 259 | 12 | 11 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 249 | 251 | 263 | 13 | 12 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 252 | 254 | 265 | 13 | 11 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 250 | 252 | 264 | 14 | 12 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 250 | 252 | 260 | 10 | 8 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 244 | 245 | 257 | 13 | 11 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 240 | 241 | 251 | 11 | 9 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 234 | 236 | 246 | 11 | 10 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 230 | 231 | 246 | 16 | 14 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 226 | 228 | 241 | 15 | 13 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 224 | 225 | 235 | 11 | 9 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 221 | 222 | 234 | 13 | 12 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 220 | 221 | 232 | 12 | 11 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 220 | 221 | 225 | 5 | 4 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 217 | 219 | 222 | 5 | 4 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 221 | 222 | 223 | 3 | 1 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 228 | 230 | 224 | 5 | 6 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 236 | 238 | 224 | 12 | 13 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 244 | 246 | 233 | 11 | 13 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 253 | 254 | 247 | 6 | 8 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 262 | 264 | 272 | 9 | 8 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 272 | 274 | 290 | 18 | 16 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 271 | 273 | 292 | 21 | 20 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 271 | 273 | 292 | 21 | 19 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 265 | 267 | 290 | 24 | 22 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 257 | 259 | 291 | 33 | 31 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 256 | 258 | 293 | 36 | 34 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 257 | 266 | 292 | 34 | 26 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 259 | 267 | 294 | 35 | 27 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 259 | 267 | 293 | 34 | 26 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 258 | 266 | 284 | 26 | 18 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 256 | 272 | 284 | 27 | 12 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 256 | 272 | 286 | 30 | 14 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 255 | 271 | 283 | 28 | 12 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 252 | 267 | 278 | 26 | 11 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 248 | 267 | 276 | 28 | 9 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 244 | 263 | 268 | 24 | 5 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 238 | 257 | 259 | 21 | 3 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 233 | 252 | 251 | 18 | 0 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 229 | 247 | 241 | 12 | 5 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 221 | 238 | 233 | 12 | 5 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 213 | 229 | 226 | 13 | 4 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 210 | 227 | 222 | 11 | 5 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 208 | 224 | 215 | 7 | 9 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 202 | 217 | 212 | 10 | 5 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 201 | 216 | 209 | 8 | 8 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 200 | 215 | 205 | 5 | 10 |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|----|